



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 731)

पटना, सोमवार, 5 अगस्त 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई 2024

एस० ओ० 327, दिनांक 5 अगस्त, 2024—विभागीय संकल्प संख्या-01/श्रम वि०स्था०(1)-10-38/2023-श्र०सं०-493, दिनांक-16.03.2024 द्वारा बिहार श्रम सेवा (सामान्य) सर्वग के विभिन्न कोटि के पदों का प्रत्यर्पण, उत्क्रमण एवं सृजन किया गया है। विभागीय निर्णय के आलोक में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पूर्व से निर्धारित पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार परिवर्तित हो गये हैं एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-37, दिनांक-30.06.2024 द्वारा नव सृजन के पश्चात् पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा चुका है।

विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने से उन जिलों में जहाँ एक से अधिक श्रम अधीक्षक पदस्थापित हुए हैं, उनके मध्य कार्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जाना अपरिहार्य है। समयक विचारोंपरांत श्रम अधीक्षकों के बीच निम्नवत् कार्यों का बँटवारा किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का पद नाम	आवंटित कार्य
1	सभी श्रम अधीक्षक	विभिन्न श्रम अधिनियमों, बोर्ड से संबंधित योजनाओं, विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्य।
2	सभी श्रम अधीक्षक अधिनियम	विभिन्न श्रम अधिनियमों एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्त अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं बंधुआ श्रम से संबंधित सभी कार्य।
3	सभी श्रम अधीक्षक, बोर्ड	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित सभी योजनाओं से संबंधित सभी कार्य।
4	सभी श्रम अधीक्षक, योजना-सह-बोर्ड	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित सभी योजनाओं से संबंधित कार्य, बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008, बंधुआ श्रम, ई श्रम, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 से संबंधित कार्य।

5	सभी श्रम अधीक्षक, पुर्नवास-सह-योजना	बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 एवं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 से संबंधित सभी कार्य।
---	--	---

सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अपने निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(सं० 01/WC-1009/2016, श्र०सं०-3979)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 731-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>